

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक- 17.11.2022

थाना रोजा पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी

साहसिक पुलिस मुठभेड मे 04 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध असलहा सहित चोरी किये गये करीब 02 लाख रुपये के 13 मोबाइल फोन, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिले बरामद।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित चौरसिया के पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम व अपराध मे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र एवं उसका निर्माण तथा बिक्री एवं अवैध हथियार के दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान मे थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 15/11/2022 को थाना रौजा पर मोबाइल चोरी को लेकर पंजीकृत अभियोगो के क्रम मे चोरी के अनावरण मे प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री कुँवर बहादुर सिंह के द्वारा के नेतृत्व मे थाना रौजा पुलिस टीम को मिली सूचना के आधार पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गयी तो बदमाशो ने पुलिस के उपर फायर कर दिया थाना रौजा पुलिस टीम ने बहादुरी से बदमाशो का सामना करते हुये चारो अभियुक्तगण को अटसलिया फाटक पुल के पास से पकड लिया व अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 307/379/411 भा0द0वि0 व 3/25 व 3/25/27 A ACT से अवगत कराते हुए दिनांक 16/17.11.22 को समय करीब रात के 02.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों कब्जे से 13 मोबाइल फोन व 02 अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस व 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गयी। अभि0गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल व समय:-

अटसलिया फाटक पुल, दिनांक 16.17.11.22 की देर रात्रि 02.25 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. शिवम वर्मा पुत्र कल्लू वर्मा निवासी गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाह0पुर।
2. सूरज पुत्र भगवानदास नि0 मोहल्ला सरायकाईया थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाह0पुर।
3. निखिल उर्फ बुच्चो पुत्र राजाराम नि0 मोहल्ला सरायकाईया थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाह0पुर।
4. फिरोज पुत्र शब्बन नि0 गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाह0पुर।

बरामदगी :-

1. कुल 13 मोबाइल (10 टच स्क्रीन स्मार्टफोन व 03 मोबाइल कीपैड) अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये।
2. दो अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर।
3. एक खोखा 315 बोर तथा 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. 02 अदद मोटरसाइकिल धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज।

विवरण पूछताछ :-

अभियुक्त शिवम वर्मा पुत्र कल्लू वर्मा उपरोक्त ने अपने जुर्म की माफी माँगते हुये कि कहा कि मुझसे गलती हो गयी कि मैने पकड़े जाने के डर से अपने बचाव मे आप लोगो पर फायर कर दिया था मुझे माफ कर दीजिए। तथा चारो अभियुक्तों ने बताया कि ये सारे फोन अलग अलग स्थानो से चोरी किये है साहब दो मोबाइल के बारे मे तो हम बता सकते है जो दिनांक 15/11/2022 को थाना रौजा क्षेत्र से चुराये है बाकि चोरी गये मोबाइल के बारे मे ठीक से याद नही है एक मोबाइल फोन दिनांक 15/11/2022 को हथौड़ा बुजुर्ग से एक घर से चुराया था तथा दूसरा फोन दिनांक 15/11/2022 को ही ओटो से दिन मे हथौड़ा बुजुर्ग से हम चारो ने चुराया था जो कि थाना रौजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 864/22 धारा 379 भा0द0वि0 व 865/22 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित थे बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त मुकदमो मे प्रकाश मे आये हैं।

पंजीकृत /अनावृत्त अभियोग:-

1. मु0अ0स0 864/2022 धारा 379 भादवि थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0स0 865/2022 धारा 379 भादवि थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0स0 866/2022 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास:-

1.अभियुक्त सूरज पुत्र भगवानदास

- (i) मु0अ0स0 2548/2016 धारा 379, 411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
- (ii) मु0अ0स0 262/2021 धारा 4/25 A ACT थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
- (iii) मु0अ0स0 423/2022 धारा 60 EX ACT थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
- (iv) मु0अ0स0 902/2022 धारा 4/25 A ACT थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह (चौकी प्रभारी हथौड़ा)
2. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा
3. हे0का0 98 ओमकार सिंह
4. का0 1402 मोहसिन
5. का0 2003 वसु आर्य
6. का0 523 राजकुमार
7. का0 1989 लोकेन्द्र सिंह